

# कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट

आप सभी को **SMC** की ओर से  
होली की  
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं



## प्रमुख खबरें

- केंद्रीय जल आयोग ने कहा है कि भारत के 150 प्रमुख जलाशयों में से आधे से अधिक में जल स्तर क्षमता के 40% से कम है और दो-तिहाई में भंडारण 50% से कम है।
- मध्य पूर्व और अन्य पारंपरिक बाजारों से मजबूत मांग के कारण चालू वित्त वर्ष के दौरान भारत का बासमती निर्यात 5 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।
- भारतीय चीनी मिल संगठन के अनुसार 2023-24 सीजन में 15 मार्च तक चीनी उत्पादन मामूली रूप से घटकर 28.08 मिलियन टन रह गया।
- ओपेक के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2024 में भारत की तेल मांग 220,000 बैरल प्रति दिन की वृद्धि के साथ 5.57 मिलियन बैरल प्रति दिन तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2023 की तुलना में 4.19% अधिक है।
- चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जनवरी अवधि में देश में कोयले का आयात एक साल पहले की

तुलना में 1.65 प्रतिशत की मामूली वृद्धि के साथ 212.24 मिलियन टन हो गया: कोयला मंत्रालय।

- सीमा शुल्क आंकड़ों से पता चलता है कि शीर्ष उपभोक्ता चीन ने इस साल जनवरी-फरवरी में 720,000 टन कच्चे एल्युमीनियम और उत्पादों का आयात किया, जो पिछले साल की समान अवधि से 93.6% अधिक है।
- इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप के अनुसार वैश्विक जिंक बाजार में जनवरी में 58,700 मीट्रिक टन सरप्लस हो गया, जबकि पिछले महीने में 46,800 टन की कमी थी।
- दो वैश्विक मौसम एजेंसियों ने कहा है कि जून के बाद ला नीना, जिसके परिणामस्वरूप विशेष रूप से भारत में भारी वर्षा और बाढ़ आती है, के उभरने की संभावना बढ़ गई है, जबकि अलनीनो समाप्त हो रहा है।

## NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	15.03.24	21.03.24	बदलाव (%)
कैस्टर सीड	5892.00	6100.00	3.53%
धान	4062.50	4200.00	3.38%
बाजरा	2412.00	2445.00	1.37%
मक्का	2253.00	2268.00	0.67%
कैस्टर ऑयल	1222.50	1225.50	0.25%

## NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	15.03.24	21.03.24	बदलाव (%)
हल्दी	17650.00	16758.00	-5.05%
जौरा	24440.00	23830.00	-2.50%
कपास	1589.00	1552.00	-2.33%
धनिया	7812.00	7656.00	-2.00%
सीसेम सीड	15610.00	15390.00	-1.41%

## MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	15.03.24	21.03.24	बदलाव (%)
कच्चा तेल	6720.00	6944.00	3.33%
सोना गिनी	52454.00	53175.00	1.37%
नेचुरल गैस	138.30	139.90	1.16%
नेचुरल गैस मिनी	138.40	139.80	1.01%
सोना	65542.00	66189.00	0.99%

## MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	15.03.24	21.03.24	बदलाव (%)
लेड	180.10	175.45	-2.58%
कॉटन	61200.00	59920.00	-2.09%
मेंथा ऑयल	938.20	920.60	-1.88%
जिंक मिनी	224.50	222.15	-1.05%
चांदी	75650.00	75081.00	-0.75%

## साप्ताहिक समीक्षा

बुलियन और ऊर्जा बाजारों में मजबूत रुझानों के कारण, सीआरबी सूचकांक ने तेजी दर्ज करते हुए 330 के स्तर को पार कर लिया। 2024 में दरों में तीन संभावित कटौती की संभावना व्यक्त करने वाले फेड के संकेतों से डॉलर इंडेक्स और ट्रेजरी यील्ड में गिरावट के कारण कमोडिटीज में खरीदारी को बढ़ावा दिया। फेडरल रिजर्व ने बुधवार को ब्याज दरों को स्थिर रखा, लेकिन नीति निर्माताओं ने संकेत दिया कि वे अभी भी अमेरिकी केंद्रीय बैंक के 2% मुद्रास्फीति लक्ष्य की दिशा में अपेक्षित प्रगति के बावजूद 2024 के अंत तक उन्हें तीन-चौथाई प्रतिशत कम करने की उम्मीद हैं। कॉमेक्स पर सोना 2025 डॉलर के सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, जबकि एमसीएक्स पर यह 66943 पर पहुंच गया। चांदी भी इसी प्रकार बढ़ती हुई, लेकिन यह एमसीएक्स पर 78590 के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से कुछ ही कम रही। तांबे में बढ़त देखी गई, लेकिन बंद होने में कामयाब नहीं हो पाई। ऊपरी सिरे पर, जबकि लेड और जिंक नीचे बंद हुए, जबकि एल्युमीनियम की कीमतें एक दायरे में स्थिर रही। लंदन मेटल एक्सचेंज में पंजीकृत गोदामों में लेड का भंडार 34% बढ़कर 11 वर्षों में उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। चीन की सबसे बड़ी तांबा रिफाइनर कंपनियों द्वारा उत्पादन में कटौती से उत्पन्न होने वाले संभावित आपूर्ति झटके के कारण इस महीने तांबे की कीमतें तेजी से बढ़ीं। तेल की कीमतों में मोटे तौर पर बढ़त जारी रही, क्योंकि अमेरिकी कच्चे तेल के स्टॉक में आश्चर्यजनक गिरावट हुई और अमेरिकी फेडरल रिजर्व के इस वर्ष में दर में कटौती के अपने दृष्टिकोण पर कायम रहने से कीमतों को मदद मिली। 15 मार्च को समाप्त सप्ताह में अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार अप्रत्याशित रूप से 2 मिलियन बैरल घटकर 445 मिलियन बैरल रह गया, क्योंकि निर्यात में वृद्धि हुई और रिफाइनरों ने उत्पादन गतिविधि में बढ़ोतरी जारी रखा। गैसोलीन भंडार लगातार सातवें सप्ताह गिरकर 3.3 मिलियन बैरल से घटकर 230.8 मिलियन रह गया, जो मजबूत ईंधन मांग का संकेत देता है। तेल की बिक्री के लिए अच्छी खबर यह है कि कम दरें आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। रूसी रिफाइनरियों पर यूक्रेनी हमलों ने भी निवेशकों को उच्च कीमतों पर कच्चे तेल का व्यापार करने के लिए प्रेरित किया।

कृषि कमोडिटीज के भीतर, ग्वार कॉम्प्लेक्स की कीमतें एक दायरे में रही, लेकिन कुछ तेजी का रुझान रहा। अरंडी की कीमतों में तेजी देखी गई, जबकि सूरजमुखी की कीमतों में चार सप्ताह की तेजी के बाद रोक लग गई। दो महीने की तेजी के बाद कॉटन कैंडी में कमजोर कारोबार हुआ, जबकि कॉटनऑयलसीडकेके मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। कपास सलाहकार बोर्ड ने वर्ष 2023-24 में कपास उत्पादन पिछले वर्ष के 336.60 लाख गांठ के मुकाबले 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान लगाया है। 18 मार्च को लगभग 83.1 हजार गांठ की आवक हुई, जबकि वर्ष 2023-24 में अब तक कुल आवक 228.15 लाख गांठ बताई गई है। मसाला बाजार में, निर्यात मांग में सुधार के बीच त्योहारी मांग बढ़ने से जौरा की कीमतें गिरावट के बाद स्थिर हो गईं, जबकि हल्दी की कीमतें लगातार दूसरे सप्ताह अपने उच्चतम स्तर से फिसल गईं। धनिया में भी ऐसी ही प्रवृत्ति देखी गई। कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आपूर्ति में सुधार होना शुरू हो गया है, लेकिन कम उत्पादन के कारण अभी भी यह सामान्य से नीचे बनी हुई है। मेंथा ऑयल और मेंथॉल के निर्यात में सुस्ती की खबरों से लगातार दूसरे हफ्ते मेंथा ऑयल की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुईं।



## हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	15.03.2024	21.03.2024	बदलाव( % )
जौ	जयपुर	2,080.00	2,052.70	-1.31%
चना	दिल्ली	6087.20	5863.55	-3.67%
धनिया	कोटा	7956.40	7832.75	-1.55%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	938.95	932.05	-0.73%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1,472.85	1,465.10	-0.53%
ग्वारसीड	जोधपुर	5249.60	5201.20	-0.92%
ग्वारगम	जोधपुर	10,308.10	10,163.40	-1.40%
जीरा	ऊझा	26715.40	26073.80	-2.40%
सरसों	जयपुर	5547.75	5483.40	-1.16%
रिफाईंड सोया तेल	मुंबई	995.00	990.00	-0.50%
सोयाबीन	इंदौर	4702.05	4700.80	-0.03%
हल्दी	निजामाबाद	16532.50	16412.05	-0.73%
गेहूं	दिल्ली	2650.00	2550.00	-3.77%
काँटन	कड़ी	29607.00	29257.60	-1.18%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	2749.55	2718.50	-1.13%

## LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत ( डॉलर में )

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	15.03.2024	21.03.2024	बदलाव( % )
एल्युमीनियम	LME	नकद	2274.50	2301.50	1.19%
तांबा	LME	नकद	9072.00	8950.50	-1.34%
लेड	LME	नकद	2129.50	2050.50	-3.71%
निकल	LME	नकद	18074.00	17541.00	-2.95%
जिंक	LME	नकद	2561.00	2524.50	-1.43%
सोना	COMEX	अप्रैल	2161.50	2184.70	1.07%
चांदी	COMEX	मई	25.38	25.01	-1.47%
लाइट क्रूड	NYMEX	अप्रैल	81.04	81.07	0.04%
नेचुरल गैस	NYMEX	अप्रैल	1.79	1.83	2.35%

## अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	15.03.2024	21.03.2024	बदलाव( % )
सोयाबीन	CBOT	मई	1,212.50	1,225.75	1.09%
सोया तेल	CBOT	मई	49.92	49.35	-1.14%
काँटन	ICE	मार्च	93.94	92.21	-1.84%
सीपीओ	BMD	मई	4,287.00	4,249.00	-0.89%

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	14.03.2024 क्वांटिटी	20.03.2024 क्वांटिटी	अंतर
काँटन	मी.टन	0	0	0
बाजरा	मी.टन	221	221	0
कैस्टर सीड	मी.टन	5250	2474	-2776
धनिया	मी.टन	0	0	0
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	59760	63753	3993
ग्वारगम	मी.टन	21276	20458	-818
ग्वारसीड	मी.टन	27730	29904	2174
जीरा	मी.टन	0	0	0
स्टील	मी.टन	505	333	-172

## गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	15.03.2024 क्वांटिटी	20.03.2024 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	666	1320	654
तांबा	मी.टन	1565088	1515043	-50045
सोना	किग्रा	327	327	0
सोना मिनी	किग्रा	6384	6384	0
सोना गिनी	किग्रा	677000	422600	-254400
लेड	किग्रा	0	0	0
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	330305	333351	3046
चांदी एम	किग्रा	49553	49553	0
जिंक	मी.टन	0	0	0

## LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 15.03.2024	स्टॉक की स्थिति 21.03.2024	अंतर
एल्युमीनियम	568525	564050	-4475.00
तांबा	106825	111325	4500.00
निकल	77424	77640	216.00
लेड	195000	267775	72775.00
जिंक	264900	272925	8025.00



## ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	काट्रेक्ट	बंद * भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अप्रैल	23830.00	14.03.24	मंदी	25000.00	-	25900.00	26000.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	16758.00	14.03.24	मंदी	18500.00	-	18050.00	18100.00
NCDEX	ग्वारसीड	अप्रैल	5185.00	14.02.24	तेजी	5300.00	5050.00	-	5000.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अप्रैल	6100.00	18.01.24	तेजी	5650.00	5770.00	-	5750.00
NCDEX	सुरजमुखी तेल	अप्रैल	881.60	06.03.24	तेजी	845.00	830.00	-	825.00
NCDEX	स्टील लांग	अप्रैल	41640.00	27.09.23	मंदी	46300.00	-	42900.00	43000.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अप्रैल	2637.00	14.12.23	तेजी	2450.00	2530.00	-	2500.00
MCX	मेंथा ऑयल	अप्रैल	934.90	27.09.23	मंदी	960.00	-	975.00	980.00
MCX	बुलडेक्स	अप्रैल	16915.00	04.03.24	तेजी	16600.00	16530.00	-	16500.00
MCX	चांदी	मई	75081.00	04.03.24	तेजी	72200.00	71250.00	-	71000.00
MCX	सोना	अप्रैल	66189.00	04.03.24	तेजी	64000.00	64550.00	-	64500.00
MCX	तांबा	अप्रैल	763.15	06.03.24	तेजी	730.00	735.00	-	730.00
MCX	लेड	अप्रैल	178.15	06.03.24	तेजी	179.00	172.00	-	170.00
MCX	जिंक	अप्रैल	222.05	06.03.24	तेजी	218.00	207.00	-	205.00
MCX	एल्युमिनियम	अप्रैल	208.05	04.03.24	तेजी	202.00	198.00	-	197.00
MCX	कच्चा तेल	अप्रैल	6733.00	13.03.24	तेजी	6500.00	6430.00	-	6400.00
MCX	नेचुरल गैस	अप्रैल	153.30	18.01.24	मंदी	235.00	-	177.50	178.00

\*21/03/2024 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लास बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लास को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में मजबूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लास अधिक बर्नांक हम सप्ताहिक आधार पर ग्राफ को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।  
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड को मिलान योजना के ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मॉनिंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

## टेक्निकल सुझाव

### तांबा (अप्रैल) एमसीएक्स



### तांबा (अप्रैल) एमसीएक्स

उच्चस्तर: 775.00

निचला स्तर: 728.70

एमसीएक्स में तांबा (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 21 मार्च 2024 को 763.15 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 751.18 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 59.70 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

741.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 775.00 रू के टारगेट के लिए 752.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### कच्चा तेल (अप्रैल) एमसीएक्स



### कच्चा तेल (अप्रैल) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 6897.00

निचला स्तर: 6110.00

एमसीएक्स में कच्चा तेल (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 21 मार्च 2024 को 6733.00 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 6625.26 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 60.76 है। दोनों ही इंडिकेटर खरीददारी का संकेत दे रहे हैं।

6500.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 7100.00 रू के टारगेट के लिए 6680.00 रू के नजदीक खरीददारी की जा सकती है।

### हल्दी (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



### हल्दी (अप्रैल) एनसीडीईएक्स

उच्चस्तर: 19776.00

निचला स्तर: 12650.00

एमसीएक्स में हल्दी (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 21 मार्च 2024 को 16758.00 रू पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 17381.83 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 53.50 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

18900.00 रू के स्टॉपलॉस के साथ 15500.00 रू के टारगेट के लिए 17800.00 रू के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



## अगले सप्ताह में बाजार का रुख

### मसाले

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आपूर्ति बढ़ने से हल्दी की कीमतें दबाव में रहें। मौसम की अनुकूल स्थिति से हल्दी की कटाई में तेजी आई है जिससे बाजार में आपूर्ति बढ़ेगी। कम उत्पादन का प्रभाव आवक की गति पर देखा जा रहा है क्योंकि पिछले वर्ष के 48.6 हजार टन हल्दी के मुकाबले मार्च-24 में अब तक प्रमुख एपीएमसी बाजार में लगभग 41.8 हजार टन की आवक हुई है। त्योहारी मांग में सुधार हुआ है, जबकि तेलंगाना और महाराष्ट्र में कम उत्पादन और फसल में देरी के कारण आपूर्ति कम हो गई है। पैदावार में गिरावट के बीच हल्दी के तहत कम उत्पादन क्षेत्र के कारण उत्पादन में लगभग 14% की गिरावट होने की संभावना है और यह 9.2-9.5 लाख टन के बीच रह सकता है। जनवरी-24 में भारत से हल्दी निर्यात 15% कम होकर 10.49 हजार टन हो गया, जबकि अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान कुल निर्यात पिछले वर्ष से 3.5% कम होकर 131.6 हजार टन दर्ज किया गया। हल्दी की कीमतों के 14800-19000 के दायरे में कारोबार करने की उम्मीद है।

सप्लाई बढ़ने की संभावना के साथ जीरा वायदा में गिरावट हुई। बंपर उत्पादन की संभावनाओं और नई फसल के शुरू होने से बाजार के सेंटिमेंट पर असर पड़ा। लेकिन निर्यात मांग में सुधार से गिरावट सीमित होने की संभावना है क्योंकि जीरा की कीमतें मौजूदा दरों पर प्रतिस्पर्धी हो गई हैं, जिससे मौजूदा दरों पर निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। जीरा के निर्यात के मौसम से पता चलता है कि मार्च-अप्रैल में त्योहारों के मद्देनजर मजबूत मांग की संभावनाओं के कारण फरवरी-मार्च के दौरान निर्यात मांग अधिक रहती है। भारत ने जनवरी-24 में 12.4 हजार टन जीरा निर्यात किया, जबकि पिछले साल यह 8.04 हजार टन था, जो साल-दर-साल 54% अधिक है। एफआईएसएस के अनुसार खेती के क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि के कारण वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादन 65% -70% बढ़कर 10.3 मिलियन बैग होने की संभावना है। जीरा की कीमतों के 21000-32500 के दायरे में रहने की संभावना है।

बाजार में बिकवाली का दबाव बढ़ने से धनिया की कीमतों में गिरावट बढ़ गई। बाजार में नई आवक शुरू होने और अधिक कैरी-फॉरवर्ड स्टॉक बढ़ने से समग्र आपूर्ति में बढ़ोतरी हुई, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ा। भारत के उत्तरी और मध्य भाग में हाल ही में हुई बारिश के कारण उपज में कमी की आशंका के कारण गिरावट सीमित होने की संभावना है, जिससे भौतिक बाजार में खरीदारी गतिविधियों को समर्थन मिला। उत्पादन क्षेत्र और उपज में गिरावट के कारण उत्पादन में साल-दर-साल लगभग 10-15% की कमी आने की संभावना है। भारत ने अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान लगभग 83.6 हजार टन धनिया का निर्यात किया, जो पिछले वर्ष के 24.8 टन की तुलना में साल-दर-साल 215% अधिक है। धनिया की कीमतों के 7200-8200 के दायरे में रहने की संभावना है।

### अन्य कमोडिटीज

मांग में कमी के कारण कपास की कीमतों में गिरावट देखी गई। घटती स्पिनिंग मार्किंग और धागे की सुस्त निर्यात मांग के कारण स्पिनिंग मिलें थोक खरीदारी से दूर हैं। इसी तरह, जिनिंग मार्जिन और निर्यात में गिरावट के कारण मांग कम रही। घरेलू बाजार में उत्पादन कम होने के कारण आवक की गति कम हो गई है। 21 मार्च को दैनिक आवक घटकर 81300 गांठ रह गई, जबकि कुल आवक 242 लाख गांठ हुई है। भारतीय कपास निगम द्वारा एमएसपी पर आक्रामक खरीदारी से भी कीमतों को स्थिर रहने में मदद मिली। कपास सीजन 2023-24 के दौरान, सीसीआई ने एमएसपी ऑपरेशन के तहत 3265971 गांठों की खरीद की है। वैश्विक बाजार में कीमतें ऊंची रहीं क्योंकि यूएसडीए ने खपत में बढ़ोतरी के साथ वैश्विक स्तर पर अंतिम स्टॉक के लिए अपने पूर्वानुमान को कम कर दिया। आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण कपास की कीमतें अधिक रहने की संभावना है क्योंकि आने वाले हफ्तों में आवक कम रहने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2023-24 में अब तक लगभग 70%-75% आवक बाजार में पहुंच चुकी है। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतों के 57000-62000 के बीच कारोबार करने की संभावना है। इसी तरह, कपास अप्रैल-24 वायदा की कीमतों के 1480-1610 के स्तर के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

आपूर्ति की कमी के बीच बेहतर मांग की संभावना के कारण कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों में तेजी के रूझान के साथ कारोबार करने की उम्मीद है। कॉटनऑयलसीडकेक की कीमतों के 2500-2800 के दायरे में रहने की संभावना है।

बाजार में आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण ग्वारसीड वायदा में तेजी की संभावना है। कीमतों में लगातार गिरावट के कारण हाल के सप्ताहों में आपूर्ति की गति धीमी रही है। लेकिन वर्ष 2023-24 में अब तक कुल आपूर्ति अधिक रही है। अक्टूबर-23-फरवरी-24 के दौरान प्रमुख एपीएमपी मंडियों में ग्वारसीड की आवक 2.10 लाख टन रही है, जो साल-दर-साल 8% अधिक है। वर्ष 2023-24 में अब तक उच्च कैरी फॉरवर्ड स्टॉक ने आपूर्ति को अधिक बनाए रखा है। वर्ष 2023-24 में ग्वारसीड का कुल उत्पादन साल-दर-साल 11%-13% घटकर 10.7 लाख टन रह गया है। अक्टूबर-23-दिसंबर-23 के दौरान ग्वार उत्पादों का कुल निर्यात साल-दर-साल 13% कम होकर 92.3 हजार टन रह गया। ग्वारसीड की कीमतों को 4850 के आसपास सपोर्ट मिलने की उम्मीद है, जबकि रेजिस्टेंस 5600 पर देखा जा सकता है। इसी तरह, ग्वारगम की कीमतों को 9600 के आसपास सपोर्ट मिलने की संभावना है, जबकि रेजिस्टेंस 11000 पर देखा जा सकता है।

आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण मेंथा ऑयल की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। कम रकबे के कारण कमजोर उत्पादन अनुमान से कीमतों में मजबूती आने की संभावना है। लेकिन निर्यात में कमी के कारण कीमतों में बहुत सीमित रहने की संभावना है। भारत ने अप्रैल-23-जनवरी-24 के दौरान पिछले वर्ष 2016.7 टन की तुलना में लगभग 1709.2 टन मेंथा तेल का निर्यात किया। मेंथा ऑयल की कीमतों को 920 के करीब सपोर्ट मिलने की संभावना है और 980 के स्तर पर रेजिस्टेंस रह सकता है।

बाजार में आपूर्ति कम होने से अरंडी की कीमतों में तेजी की उम्मीद है। अरंडीमिल और तेल के बेहतर निर्यात से भी कीमतों में मजबूती आने की संभावना है। कैस्टरसीड की कीमतों के 5700-6300 के दायरे में रहने की संभावना है।

### सर्फा

इस वर्ष में फेडरल रिजर्व द्वारा दर में कटौती के अनुमानों के कारण सोने ने पिछले पांच सप्ताह में चौथी साप्ताहिक बहुत दर्ज की। फेड द्वारा दरों को स्थिर बनाए रखने के बावजूद, नीति निर्माताओं ने मुद्रास्फीति में हालिया बढ़ोतरी के बावजूद, 2024 के अंत तक दरों में तीन-चौथाई प्रतिशत की कमी करने के अपने इरादे का संकेत दिया। फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल ने इस बात पर जोर दिया कि मुद्रास्फीति के बड़े हुए आंकड़े अमेरिकी मूल्य दबाव को धीरे-धीरे कम करने की व्यापक कहानी को नहीं बदलते हैं। जब ब्याज दरों में गिरावट होती है, तो सोने जैसे कीमती धातु को रखने की अवसर लागत कम हो जाती है, जिससे कीमतों को मदद मिलती है। सीएमई समूह के फेडवाच टूल के अनुसार, फेड फंड वायदा व्यापारी अब जून में शुरू होने वाली दर में कटौती की 74% संभावना बता रहे हैं। इस बीच, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उधार लेने की लागत को अपरिवर्तित रखने का विकल्प चुना और दर में कटौती की ओर संभावित बदलाव का संकेत दिया क्योंकि अर्थव्यवस्था उस दिशा में आगे बढ़ रही है। अमेरिका में बेरोजगारी लाभ के नए दावों में गिरावट और फरवरी में पहले से स्वामित्व वाले घरों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ गुरवार को अप्रत्याशित रूप से बेहतर आंकड़े आए। लेकिन, स्विस् नेशनल बैंक द्वारा ब्याज दर में आश्चर्यजनक कटौती के बाद डॉलर में तेजी आई, जिससे वैश्विक स्तर पर जोखिम सेंटिमेंट को बढ़ावा मिला और मजबूत अमेरिकी आर्थिक विस्तार के बीच डॉलर को लेकर आकर्षण बढ़ गया। कॉमेक्स पर, सोने की कीमतों के 2222.91 के अब तक के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद गिरावट हुई और यह स्तर अब रेजिस्टेंस के रूप में कार्य कर रहा है। सपोर्ट स्तर 2140 और 2090 डॉलर पर हैं। कॉमेक्स पर, चांदी की कीमतें 22.60-26.00 डॉलर के दायरे में उतार-चढ़ाव दर्ज कर सकती हैं। एमसीएक्स पर सोने की कीमतों में अस्थिरता रहने की उम्मीद है, और कीमतों को 64500 के करीब सपोर्ट और 67000 के करीब रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है। चांदी की कीमतें 73800-77000 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

### एनर्जी कॉम्प्लेक्स

गाजा में युद्धविराम की संभावनाएं उभरने से आपूर्ति संबंधी चिंताएं कम होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई। रिपोर्टों से पता चला है कि अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव का मसौदा पेश करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें गाजा में तत्काल और निरंतर युद्धविराम की वकालत की जाएगी। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटीनी ब्लिंकन ने कतर में शांति वार्ता को लेकर उम्मीदें व्यक्त कीं। तेल बाजार को मजबूत डॉलर के दबाव का भी सामना करना पड़ा, जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में अमेरिका में लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों की उम्मीदों के कारण है। इससे अलावा, ईआईए आंकड़ों से पता चलता है कि अमेरिका में गैसोलीन उत्पाद की आपूर्ति में तीन सप्ताह में पहली बार 9 मिलियन बैरल से नीचे की गिरावट हुई है, जो कमजोर खपत का संकेत है। स्विस् नेशनल बैंक द्वारा ब्याज दर में आश्चर्यजनक कटौती के बाद डॉलर में रिकवरी होने से तेल की कीमतों पर अधिक दबाव डाला क्योंकि इससे अन्य मुद्राएं रखने वाले निवेशकों के लिए तेल अधिक महंगा हो गया, जिससे मांग कम हो गई। आगामी दिनों में कच्चे तेल की कीमतों के वैश्विक विकास के प्रति संवेदनशील रहने की उम्मीद है और इसमें काफी अस्थिरता देखी जा सकती है। कच्चे तेल की कीमतें 6460-6900 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इस बीच, सर्दियों के अंत में टंड के मौसम के पूर्वानुमान, जो भंडारण में अधिशेष को कम करने में मदद कर सकती है, के कारण नेचुरल गैस की कीमतों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। ईआईए की साप्ताहिक भंडार रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी नेचुरल गैस का भंडार प्रचुर मात्रा में रहने का अनुमान है, जो 15 मार्च तक उनके 5 साल के औसत से 41.0% अधिक है, और लगभग आठ वर्षों में उच्चतम स्तर है। नेचुरल गैस के लिए मौसम का पूर्वानुमान मिला-जुला रहा। पश्चिमी और मध्य अमेरिका में अनुमानित औसत तापमान से अधिक टंड रही, जबकि पूर्वी अमेरिका में गर्म मौसम के पूर्वानुमान के विपरीत रहा। इस सप्ताह में, गैस की कीमतें 130-150 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।



## बेस मेटल

मांग की चिंता और मजबूत अमेरिकी डॉलर के कारण बेस मेटल की कीमतें नरमी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती हैं। निवेशक चीन के संकटग्रस्त और कर्ज से दबे संपत्ति क्षेत्र को लेकर चिंतित हैं, जो आमतौर पर औद्योगिक धातुओं का प्रमुख उपभोक्ता है। चीन का रियल एस्टेट चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि संपत्ति निवेश में 9% की गिरावट हुई है—हालांकि दिसंबर से धीमी गिरावट हुई है। फरवरी में चीन के औद्योगिक उत्पादन में अप्रत्याशित तेजी के बावजूद चीनी अर्थव्यवस्था की मजबूती को लेकर चिंता बनी हुई है। तांबे की कीमतें 740-770 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। कच्चे माल की कमी के कारण उत्पादन में कटौती करने के स्मेल्टरों के रणनीतिक निर्णय के बावजूद, 15 मार्च को समाप्त सप्ताह के दौरान चीन में वितरण योग्य तांबे के भंडार में 20% की महत्वपूर्ण वृद्धि के कारण सेंटीमेंट अभी भी कमजोर है, जो मौसमी रूप से पर्याप्त स्टॉक जमा करने की गतिविधियों का संकेत देती है। जिक की कीमतें 212-226 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। वैश्विक स्तर पर प्रमुख जिक खदानों में व्यवधान से उत्पन्न आपूर्ति संबंधी चिंताओं के कारण जिक की कीमत को समर्थन मिला। उच्च आपूर्ति के कारण लैंड की कीमतें 174-182 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। मैक्वेरी को उम्मीद है कि इस साल वैश्विक लैंड बाजार में 76,000 टन और 2025 में 138,000 टन का सरप्लस होगा। एल्युमीनियम की कीमतें तेजी के रुझान के साथ 200-215 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं क्योंकि शीर्ष उपभोक्ता चीन से मांग की संभावनाओं में सुधार के कारण खरीदारी में रुचि बढ़ी है। लेकिन पर्याप्त आपूर्ति से बढ़त सीमित रह सकती है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि 2024 के पहले दो महीनों में चीन का प्राथमिक एल्युमीनियम उत्पादन उसी साल की समान अवधि से 5.5% बढ़कर 7.1 मिलियन टन हो गया। स्टील लॉन्ग (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रुझान के साथ 40800-42500 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। निर्माण और मैनुफैक्चरिंग में मंदी जैसे कारकों के कारण दुनिया भर में स्टील की मांग कमजोर हो रही है।

## इस्पात (स्टील)...“आर्थिक वृद्धि का अहम स्तंभ”


इस्पात उद्योग को अक्सर किसी भी देश के विकास के आर्थिक संकेतक के रूप में माना जाता है क्योंकि इसकी बुनियादी ढांचागत और समग्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका उत्पादन देश के सकल घरेलू उत्पाद में शीर्ष योगदानकर्ताओं में से एक माना जाता है, और पुलों, भवनों और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्पात उत्पाद का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। भारत में लगभग 60% स्टील उत्पादन मुख्य रूप से टीएमटी, बार्स, वायर रॉड, और चैनल आदि जैसे विभिन्न रूपों के साथ निर्माण गतिविधियों के लिए उपयोग किए जाने वाले लंबे उत्पादों के लिए होता है। उत्पादित स्टील के शेष 40% फ्लैट उत्पादों का उपयोग इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोबाइल और इंजीनियरिंग उद्देश्य के लिए किया जाता है। सभी तरह के सेगमेंट में स्टील के अनुप्रयोग में भारी उछाल देखने को मिलेगा, और इसके अलावा उपयोग के नए क्षेत्रों जैसे कि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का एकीकरण और ड्रोन तकनीक से स्टील कारोबारियों को पर्याप्त अवसर मिलेगा।

### वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील का उत्पादन

- वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में स्थिर रहा, और 2022 में 1888.7 मिलियन टन के मुकाबले 1888.2 मिलियन टन का उत्पादन हुआ।
- लेकिन, वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का उत्पादन जनवरी 2024 में 1.6 प्रतिशत घटकर 148.1 मिलियन टन हो गया, जो एक साल पहले इसी अवधि में 150.6 मिलियन टन था।
- वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अनुसार, 2023 के लिए, शीर्ष उत्पादक चीन का उत्पादन 1019.1 मिलियन टन पर स्थिर रहा।
- भारत का इस्पात उत्पादन पिछले वर्ष के 125.4 मिलियन टन के मुकाबले 11.8 प्रतिशत बढ़कर 140.2 मिलियन टन हो गया।
- भारत ने जनवरी 2024 में उत्पादन में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 12.5 मिलियन टन की वृद्धि दर्ज की।
- जापान का उत्पादन 2022 में 89.2 मिलियन टन के मुकाबले 2.5 प्रतिशत की गिरावट के साथ 87 मिलियन टन पर आ गया।
- वर्ष में अमेरिकी उत्पादन में मामूली वृद्धि हुई, जो 80.5 मिलियन टन के मुकाबले 0.2 प्रतिशत बढ़कर 80.7 मिलियन टन हो गया।
- रूसी और कोरियाई उत्पादन क्रमशः 5.6 और 1.3 प्रतिशत बढ़कर 75.8 मिलियन टन और 66.7 मिलियन टन हो गया।
- वैश्विक स्तर पर कच्चे स्टील की मांग
- वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि 2024 में दुनिया भर में स्टील की मांग में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। अपनी छोटी अवधि के आउटलुक में, वर्ल्ड स्टील ने कहा कि 2024 में मांग बढ़कर 1,849.1 मिलियन टन हो जाएगी।
- मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र में सुधार की उम्मीद है, लेकिन उच्च ब्याज दरों का स्टील की मांग पर दबाव बना रहेगा।
- यूरोपीय संघ में कमजोर निर्माण गतिविधि और संयुक्त राज्य अमेरिका में बढ़ती ब्याज दरों के बीच मांग में वृद्धि सीमित है, जो घरेलू इस्पात खपत को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। लौह अयस्क और इस्पात के दुनिया के सबसे बड़े उपभोक्ता चीन में, इस्पात उद्योग रियल एस्टेट क्षेत्र में चल रही समस्याओं से पीड़ित है।

### कच्चे स्टील का उत्पादन

#### Crude steel production



- सख्त मौद्रिक नीति के विलंबित प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, हमें उम्मीद है कि 2024 में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में स्टील की मांग में सुधार धीमा रहेगा।
- चीन का ऋण संकट, सुस्त उपभोक्ता खर्च और बढ़ती इस्पात क्षमता 2024 में घरेलू इस्पात बाजारों के लिए सबसे बड़ी बाधा बने रहने की उम्मीद है।
- भारत में स्टील की खपत वैश्विक रुझान के विपरीत है और बुनियादी ढांचे, भवन और निर्माण पर बढ़ते सरकारी खर्च के कारण 7-8% बढ़ने का अनुमान है।

### आउटलुक

उच्च इनपुट लागत, मुख्य रूप से लौह अयस्क और कोकिंग कोल की अधिक लागत, और चल रहे भू-राजनीतिक संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्टील की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। घरेलू स्टील की कीमतों के भी वैश्विक कीमतों के अनुकूल रहने की संभावना है और समग्र आर्थिक रिकवरी और इनपुट कीमतों में वृद्धि के बीच बुनियादी ढांचे के विकास और रियल एस्टेट और निर्माण गतिविधियों में तेजी के कारण बेहतर घरेलू मांग होने से घरेलू स्टील की कीमतों में तेजी रहने की उम्मीद है।



आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- [www.smctradeonline.com](http://www.smctradeonline.com)



#### Corporate Office:

11/6B, Shanti Chamber,  
Pusa Road, New Delhi - 110005  
Tel: +91-11-30111000  
[www.smcindiaonline.com](http://www.smcindiaonline.com)

#### Mumbai Office:

Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402 , 4th Floor ,  
Graham Firth Steel Compound, Off Western  
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon  
(East) Mumbai - 400063  
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

#### Kolkata Office:

18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,  
5th Floor, Kolkata-700001  
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000  
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ लें। सेबी द्वारा दिया गया पंजीकरण और एनआईएसएम से प्रमाणन किसी भी तरह से मध्यस्थ के प्रदर्शन की गारंटी नहीं देता है या निवेशकों को रिटर्न का कोई आश्वासन नहीं देता है। उद्धृत प्रतिभूतियां केवल उदाहरण के लिए हैं और अनुशासनात्मक नहीं हैं। एसएमसी सेबी द्वारा पंजीकृत एक अनुसंधान विश्लेषक है जिसका पंजीकरण संख्या आईएनएच 100001849 है। सीआईएन: L74899DL1994PLC063609 है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का नियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बाँबे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एसएमसी एक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड को सदस्य है। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मर्चेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड सेबी (रिसेच एनालिस्ट) रजुलेशन 2014 के तहत रिसेच एनालिस्ट के साथ रजिस्टर्ड संस्था INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिन्क्रोरीटिज लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एग्रीटिड द्वारा सिन्क्रोरीटिज मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निर्बंधित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसेच एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आंकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री को शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार की परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसेच एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

**दिसक्लेमर:** यह रिसेच रिपोर्ट अधिकृत प्रादाकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक के किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सन्कुलेशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाये गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉरपोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसको (अ) समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या विक्री, कोई भी पोजिशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या विक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौदों में और ब्रोकरेज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।